



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

29 वैशाख 1938 (श0)  
(सं0 पटना 393) पटना, बृहस्पतिवार, 19 मई 2016

---

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

17 मई 2016

सं0 5 न0वि0/निर्वा-01/16-3147—नगर निगम, कटिहार का कार्यकाल दिनांक 12.06.2016 को समाप्त हो रहा है;

और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस नगरपालिका के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है,

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या-11, 2007) की धारा-441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद् द्वारा नगर निगम, कटिहार के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 14.06.2016 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

चैतन्य प्रसाद,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 393-571+25-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>